



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1945 (श10)

(सं0 पटना 514) पटना, शुक्रवार, 30 जून 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

28 जून 2023

सं०— 06/RVSF-12-06/2023-5010—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-29(अ) दिनांक-16.01.2023 (दिनांक-01.04.2023 से प्रभावी) द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-52-A में प्रावधान किया गया है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-41(7) के आलोक में प्रथम निबंधन की तिथि से 15 पूरा होने के पश्चात् निबंधन समाप्त हो जायेगा। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-52A के आलोक में 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों को स्कैप करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय एवं स्कैप करने के पश्चात् नया वाहन खरीदने पर कर छूट एवं एकमुश्त छूट स्कीम का लाभ दिया जायेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-RT-23013/4/2023-T दिनांक 09.05.2023 द्वारा वर्ष 2023-24 के पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार के पत्र सं०-44(1)/PF-S/2023-24 (CAPEX) दिनांक 02.05.2023 द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता हेतु निर्गत पूरक दिशा-निर्देश में प्रावधानित है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों को रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा के माध्यम से निपटान करने हेतु निर्देश निर्गत किये जाने की स्थिति में राज्य विशेष सहायता के पात्र होंगे।

परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-02/कर/शुल्क-10/2021, परि०/658 दिनांक 01.02.2022 द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में प्रावधान किया गया है कि यदि वाहन निक्षेप प्रमाण-पत्र (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो मोटरयान के निबंधन के समय यान का स्कैपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मोटरवाहन कर में निर्धारित छूट प्रदान किया जाएगा।

वर्तमान में सभी विभाग एवं कार्यालयों से 15 वर्ष से पुराने कुल-2017 (दो हजार सतरह) वाहनों को वित्तीय वर्ष-2023-24 में स्कैप करने के लिए चिन्हित किया गया है।

अतः राज्य सरकार के सभी विभाग को सूचित किया जाता है कि अपने स्वामित्व वाले 15 वर्ष से पुराने वाहनों को रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा के माध्यम से स्कैप कराने हेतु संबंधित निबंधन प्राधिकार के समक्ष वाहन के अपंजीकरण (Deregistration) हेतु आवेदन समर्पित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 514-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>